



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14]
No. 14]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 12, 2007/माघ 23, 1928
NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 12, 2007/MAGHA 23, 1928

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 2007

आ.अ. 16(अ).—यतः, मध्य प्रदेश राज्य से लोक सभा में उस राज्य के 3-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित, श्री रामसेवक सिंह (बाबूजी) का स्थान अध्यक्ष, लोक सभा के आदेश दिनांक 23-12-2005 द्वारा 23-12-2005 से सदस्यता समाप्ति के कारण रिक्त हो गया है; और

यतः, अध्यक्ष के उक्त आदेश को चुनौती देते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष 2006 की रिट याचिका संख्या 1 तथा कुछ स्थानांतरण मामले दर्ज किए गये तथा सर्वोच्च न्यायालय ने 3 अप्रैल, 2006 को यह निदेश दिया था कि उक्त मामलों के संबंधित होते हुए उन स्थानों को भरने के लिए उप-निर्वाचन नहीं करवाये जा सकते हैं; और

यतः, सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 10-01-2007 के अपने निर्णय द्वारा इन सभी मामलों को रद्द करने की घोषणा की है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है,

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उप-धारा (1) तथा धाराओं 30 और 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा—

(अ) मध्य प्रदेश राज्य में उक्त 3-ग्वालियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि वह 14 मार्च, 2007 (बुधवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोक सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में—

- | | | | |
|-----|--|---|-----------------------------|
| (क) | नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख | : | 19 फरवरी, 2007 (सोमवार); |
| (ख) | नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख | : | 20 फरवरी, 2007 (मंगलवार); |
| (ग) | अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख | : | 22 फरवरी, 2007 (वीरवार); |
| (घ) | वह तारीख जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा | : | 08 मार्च, 2007 (वीरवार); और |
| (ङ) | वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा | : | 14 मार्च, 2007 (बुधवार); |

नियत करता है; और

- (इ) 7.30 बजे पूर्वाह्न से 4.30 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय, के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

[सं. 100/म. प्र.-लो. स./1/2007]

आदेश से,

ललित मोहन, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th February, 2007

O. N. 16(E).— Whereas, the seat of Shri Ramesevak Singh (Babuji) in the House of the People, elected from 3-Gwalior Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 23-12-2005, due to cessation of his membership on the order of the Speaker, Lok Sabha on 23-12-2005; and

Whereas, a Writ Petition No. 1 of 2006 and certain Transferred Cases were filed before the Supreme Court of India challenging the order of the Speaker, and the Supreme Court had directed on 3rd April, 2006 that the bye-election to fill the said vacancy may not be held, pending the above cases; and

Whereas, the Supreme Court has pronounced its judgement dismissing all these cases on 10-01-2007; and

Whereas, a bye-election is now to be held for the purpose of filling the said vacancy;

Now, therefore, in pursuance of Sub-section (1) of Section 149 and Sections 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby—

- (A) Calls upon the said 3-Gwalior Parliamentary Constituency in the State of Madhya Pradesh to elect, before the 14-03-2007 (Wednesday) and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the House of the People ; and
- (B) Appoints, with respect to the said election—
 - (a) the 19-02-2007 (Monday), as the last date for making nominations;
 - (b) the 20-02-2007 (Tuesday), as the date for the scrutiny of nominations;
 - (c) the 22-2-2007 (Thursday), as the last date for the withdrawal of candidatures;
 - (d) the 08-03-2007 (Thursday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
 - (e) the 14-03-2007 (Wednesday) as the date before which the election shall be completed; and
- (C) Fixes the hours from 7.30 A.M. to 4.30 P. M., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/MP-HP/1/2007]

By Order,

LALIT MOHAN, Secy.